

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019—पौष 26, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2019 (पौष 26, 1940)

क्र. 485-मप्रविस-15-विधान-2019.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करती हूँ.

भोपाल :
दिनांक 16 जनवरी, 2019

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.